


मानवित्व स्वीकृति की शर्त मानवित्व
क्रमिक... के पीछे बसा है।






उच्च स्तरीय समिति के
अनुमोदनोपरांत स्वीकृत
स्वीकृत - १३ नवंबर २०१५
निर्धारित गति, नियमों
के अधीन मानवित्व
स्वीकृत किया जाता है।

Checked & Submitted
For Approval

25-06-15

आवास आयुक्त (म०) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम
में श्रृंखला पर प्रस्तावित ८.७५ ए० ए० आर० के
साथ प्रथम चरण में १.२० ए० ए० आर० का
मानवित्व इस शर्त सहित निर्गत किये जा रहे हैं,
कि प्रथम चरण में स्थल पर बसिक ए० ए० आर०
का निर्माण अनुमत्य किया जा रहा है। कालान्तर में
१.२० से ३.७५ ए० ए० आर० के निर्माण की अनुमति
है। स्थल से १.२० ए० ए० आर० के निर्माण की
पुष्टि प्राप्त होने व नियमानुसार तत्समय देय लेटर
फीस एवं फ्रॉय योग्य ए० ए० आर० शुल्क का
भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त द्वितीय चरण में
अनुमति तलें हेतु निर्माण की अनुमति प्रदान
की जायेगी।

वास्तुविद नियोजक



$$\frac{1}{2} \times L \times H - \left(\frac{\pi}{360} \times [r^2] - \sqrt{s(a)(s-b)(s-c)} \right)$$

$$a = 11.885$$

$$b = 8.500$$

$$c = 8.500$$

$$s = \frac{11.885 + 8.500 + 8.500}{2} = 14.443$$

$$\frac{1}{2} \times 8.309 \times 8.498 - \left(\frac{\pi}{360} \times 3.14 \times 8.500^2 \right)$$


$$= \sqrt{14.443(14.443 - 11.885)(14.443 - 8.500)(14.443 - 8.500)}$$

$$= 35.305 - (56.086 - \sqrt{14.443 \times 2.558 \times 5.943 \times 5.943})$$

$$= 35.305 - (56.086 - 36.123)$$

$$= 35.305 - 19.963$$

$$= 15.342$$



$$\frac{1}{2} \times L \times H - \left(\frac{\pi}{360} \times [r^2] - \sqrt{s(a)(s-b)(s-c)} \right)$$

$$a = 7.690$$

$$b = 5.500$$

$$c = 5.500$$

$$s = \frac{7.690 + 5.500 + 5.500}{2} = 9.345$$

$$\frac{1}{2} \times 5.376 \times 5.499 - \left(\frac{\pi}{360} \times 3.14 \times 5.500^2 \right)$$

$$= \sqrt{9.345(9.345 - 7.690)(9.345 - 5.500)(9.345 - 5.500)}$$

$$= 14.781 - (23.482 - \sqrt{9.345 \times 1.655 \times 3.845 \times 3.845})$$

$$= 14.781 - (23.482 - 15.121)$$

$$= 14.781 - 8.361$$

$$= 6.420$$

LANDSCAPE AREA CALCULATIONS						
S.NO	LENGTH		WIDTH		NO	AREA
X	122.363	X	22.820	X	1	= 2792.32
Y						= 160.27
SUB TOTAL AREA-1						2952.60
1	AS PER DETAIL			X	1	= 15.34
2	108.295	X	2.436	X	0.5	= 131.90
3	5.376	X	2.436	X	1	= 13.09
4	AS PER DETAIL			X	1	= 6.33
5	1.209	X	14.885	X	0.5	= 6.42
SUB TOTAL AREA-2						173.09
TOTAL AREA						
SUB TOTAL AREA-1		-	SUB TOTAL AREA-2			
2952.600		-	173.099		=	2779.50
TOTAL AREA	-	TOWER-1 BUILT-UP AREA		-	TOWER-2&3 BUILT-UP AREA	
2779.501	-	547.260		-	848.535	
TOTAL LANDSCAPE AREA						1383.70

OWNERS' SIGN:
For Solid Properties (P) Ltd.
Director

ARCHITECT'S SIGN:
SHASHANK SHARMA
C.O.A Reg No. C-10000000

PROPOSED HOUSING
EXPRESS VASUNDHARA
AT PLOT NO 14, COM-2,
VASUNDHARA, GHAZIABAD

OWNER:
SOLID PROPERTIES(P) LTD,

SHEET TITLE:
LANDSCAPE PLAN

DRAWING NO:
A-01a

SCALE:
1:250

DATE:
13 JAN. 2017

ARCHITECTS:
4d DIMENSION
C-17, Basement, ANAND NIKETAN,
New Delhi - 110 021 110 01A
ARCHITECTURE-INTERIOR-PLANNING PHONES: +91 11 49101137 +91 901001137
http://www.4d-arch.com INK: +91 11 422843 E-MAIL: ink@4darch.com

© & ® THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECTS AND
IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT PERMISSION